

# गगवाल में भारी मात्रा में स्प्रिट और शराब समेत दो लोग गिरफ्तार, पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई

Publish Date: Mon, 14 Sep 2020 09:36 AM (IST)



Police Raid Gagwal पुलिस चौकी ठाकुरद्वारा के तहत गगवाल गांव में शनिवार देर रात पुलिस ने नकली शराब बनाने में प्रयुक्त होने वाले रासायनिक तरल स्प्रिट समेत दो लोगों को गिरफ्तार किया

**भदरोआ, जेएनएन।** पुलिस चौकी ठाकुरद्वारा के तहत गगवाल गांव में शनिवार देर रात पुलिस ने नकली शराब बनाने में प्रयुक्त होने वाले रासायनिक तरल स्प्रिट समेत दो लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपितों की पहचान राजन व राकेश निवासी गगवाल के रूप में हुई है। पुलिस थाना इंदौरा के प्रभारी सुरेंद्र सिंह धीमान ने बताया कि शनिवार रात चौकी ठाकुरद्वारा के प्रभारी रूप सिंह टीम के साथ गगवाल में गश्त कर रहे थे। इस दौरान टीम को सूचना मिली कि गांव में दो लोग घर में अवैध तरीके से शराब बनाते हैं।

पुलिस कर्मियों ने पंचायत उपप्रधान व पूर्व उपप्रधान को साथ लेकर आरोपितों के घर में दबिश दी। इस दौरान 14 कैन में शराब बरामद की। गिरफ्तारी के बाद दोनों ने पूछताछ में बताया कि उन्होंने दूसरी जगह भी शराब बनाने का सामान रखा है। आरोपितों की निशानदेही पर पुलिस ने गगवाल रेलवे फाटक के पास जमीन में दबाए स्प्रिट के 48 कैन बरामद किए।

## क्या है स्प्रिट

स्प्रिट का सामान्य तौर पर इस्तेमाल अस्पतालों में किया जाता है। घाव साफ करने और सैनिटाइजर के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, लेकिन नशा माफिया इससे नकली शराब बनाता है।

## नकली शराब बनाने में ऐसे होता है इस्तेमाल

माफिया के सदस्य ठेके से शराब की बोतलें खरीदकर रख लेते हैं। इस दौरान पूरी बोतल से आधी शराब निकाल लेते हैं और उसमें कुछ मात्रा में स्प्रिट और शेष पानी डाल देते हैं। नकली शराब की बोतलों में रंग भी मिलाया जाता है।

## नकली रम बनाने के लिए लौंग का भी होता है प्रयोग

रम बनाने के लिए स्प्रिट के साथ लौंग का प्रयोग किया जाता है। लौंग को भूनकर व पीसकर पानी में उबाला जाता है। इससे उसका रंग भूरा हो जाता है। इससे रम का फ्लेवर भी आ जाता है। आधी से कम बोतल में पानी व स्प्रिट मिलाकर नकली रम की बोतल तैयार की जाती है।

Source: <https://www.jagran.com/himachal-pradesh/kangra-police-raid-at-gagwal-and-recovered-siprit-and-liquor-two-person-arrested-on-the-spot-20746565.html>